

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

पत्र संख्या1031-673/ हिलसा, दिनांक 13/6/22

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी —सह— सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना।

विषय:—

MMGSY(GEN) योजना अन्तर्गत राशि का अधियाचना समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि MMGSY(GEN) योजना अन्तर्गत अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर समर्पित की जा रही है।

अनु०— यथोक्त

विश्वासभाजन

13/6/22

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल हिलसा।

13/6/22

13.06

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (I) below Rule-150)
Form of Utilization Certificate up to the month of 13th June-2022
RWD Works Division Hilsa

SL No	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in lacs Rs.)	Amount Received (in lacs Rs.)	Particulars
1	Construction of Rural roads under MMGSY(GEN)		5964.80572	Certified that out of Rs. 5964.80572 lacs of grants-in-aid sanctioned during the years 2013-14 in favors of E-in-C, RWD Bihar, Patna a sum of Rs. 5946.62428 lacs has been utilized for the purpose of MMGSY Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 18.18144 lacs remaining unutilized at the end of the period under report.
	Total :		5964.80572	


2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.


Kind of Checks exercised :-


- Works have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer/ Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

3. Physical Progress achieved :-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD works


A.A.M
13/6/22
RWD,(W),Hilsa


D.A.O
13-06
RWD (W),Hilsa


Executive Engineer
13/6/22
RWD (W),Hilsa

Rural Works Department
MMGSY(GEN) Allotment Requisition

Name of Division:- Hilsa

Sr.N o	Year	Name of Road	Name of Contractor	Administrative Sanction		Agreement Ammount (in Lacs)		Allotment Received (in Lacs)	Total Expenditure as per M/s (in Lacs)	Value of Measurement (in Lacs)	Balance in Hand	Current Demand (in Lacs) (11-9)	Remarks
				Length (in Km)	Ammount (in Lacs)	Main Work	Maintenance						
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Hilsa Reri Bans Bigha											
		MMGSY Road To											
		Ughan Bigha Mahadalit	Saryu Sharan singh	0.850	50.64600	Rs.43.76921+Su plementry Agreement6.68535)=50.45404	4.17893	23.60287	23.60287	49.45003	0.00000	25.84716	Final Bill
		Tola											
Total								23.60287	23.60287	49.45003	0.00000	25.84716	

[Signature]
13/6/22

A.A.M

RWD(W), Hilsa

D.A.O

RWD(W), Hilsa

[Signature]

Executive Engineer

RWD(W), Hilsa

[Signature]
13/6/22